

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2019 — वैसाख 4, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2019

अधिसूचना

सं. 20/2019-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच (45) .- राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 07) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 है ।
(2) ये अधिसूचना जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 23 के उपनियम (1) के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया सभी विवरणियां उक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह भी कि जहां रजिस्ट्रीकरण भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किया गया है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित सभी विवरणियां रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।”

- उक्त नियमों के नियम 62 में, -

(क) पार्श्वशीर्ष में शब्दों “प्रशमन प्रदायकर्ता द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति” के स्थान पर “विवरण और विवरणी को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप नियम (1), -

(i) “धारा 10 के अधीन कर का संदाय” शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाले के तथा “त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा” अक्षरों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला या छत्तीसगढ़ के राजपत्र, असाधारण, क्रमांक 87 दिनांक 11 मार्च 2019 द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-राज्य कर(दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला-

- (i) किसी तिमाही या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक **प्ररूप जीएसटी सीएमटी-08** में स्व-निर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण; तथा
- (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आगामी अप्रैल माह के तीसवें दिन तक **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा”;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

(ग) उपनियम (2) में वाक्यांश “विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर, ब्याज, शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“विवरण प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर या ब्याज”

(घ) उपनियम (4) में, --

- (i) शब्दों और अंकों “धारा 10 के अधीन संदाय करने का विकल्प लिया है” के पश्चात् “या छत्तीसगढ़ के राजपत्र, असाधारण, क्रमांक 87 दिनांक 11 मार्च 2019 द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-राज्य कर(दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त किया है” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, -

(अ) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं;

(आ) शब्दों “प्रशमन स्कीम का विकल्प लेने” के पश्चात् “या छत्तीसगढ़ के राजपत्र, असाधारण, क्रमांक 87 दिनांक 11 मार्च 2019 द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-राज्य कर(दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर के संदाय का विकल्प लेने” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

- (ड.) उपनियम (5) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों “धारा 9 के अधीन कर के संदाय के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विकल्प लेने से पूर्व अवधि से उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के सितंबर मास को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरण प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख या पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख, जो भी पूर्वतर हो” के स्थान पर “ऐसी अवधि जिसके लिए, तिमाही जिसमें प्रत्याहरण की

तारीख आती है, के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक प्रशमन स्कीम के अधीन कर का संदाय किया है, के लिए प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसा प्रत्याहरण आता है की समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करेगा” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(च) उपनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने छत्तीसगढ़ के राजपत्र, असाधारण, क्रमांक 87 दिनांक 11 मार्च 2019 द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-राज्य कर(दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करना बंद कर दिया है जहां अपेक्षित हो, ऐसी अवधि के लिए तिमाही जिसमें परिवर्ति तारीख आती है से उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक उक्त अधिसूचना के अधीन लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय किया है प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसी परिवर्ति होती है कि समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करेगा” ।

4. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08

(नियम 62 देखें)

स्व:निर्धारित कर के संदाय के लिए विवरण

		वित्तीय वर्ष			
		तिमाही			
1.	जीएसटीआईएन				
2.	(क) विधिक नाम	<स्वत:>			
	(ख) व्यापार नाम	<स्वत:>			
	(ग) एआरएन	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)			
	(घ) फाइल करने की तारीख	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)			

3. स्व:निर्धारित दायित्व का सारांश

(कुल अग्रिम, जमा और विकलन टिप्पण और संशोधन आदि के कारण कोई अन्य समायोजन)

(सभी सारणियों में रुपयों में रकम)

क्र. सं.	विवरण	मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7
1.	जावक पूर्ति (छूट प्राप्त पूर्ति को सम्मिलित करते हुए)					
2.	आवक पूर्ति सेवाओं के आयात को सम्मिलित करते हुए आरक्षित भार को आकर्षित करते हुए आवक पूर्ति					
3.	संदेय कर (1+2)					
4.	संदेय ब्याज, यदि कोई हो					
5.	संदेय कर और ब्याज					

4. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :

1. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन या अधिसूचना संख्या 02/2019-राज्य कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 (एफ-10-

- 12/2019/वाक/पांच(33) का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला करदाता, सम्यक तारीख तक तिमाही आधार पर कर का संदाय करेगा।
2. अग्रिम, जमा/विकलन टिप्पण या सुधार के लेखें समायोजन दायित्व के विरुद्ध रिपोर्ट की जाएगी।
 3. नकारात्मक मूल्य की ऐसे रिपोर्ट की जाएगी कि ऐसा मूल्य समायोजन के पश्चात् आया है।
 4. यदि कुल संदेय कर नकारात्मक हो गया है, तब उसे अगली कर अवधि के लिए, उस अवधि में उसका उपयोग करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।
 5. यदि संदाय सम्यक तारीख के पश्चात् किया जाता है तो ब्याज उद्ग्रहणीय होगा।
 6. 'शून्य' वरण दाखिल किया जाएगा यदि तिमाही के दौरान कोई कर देयता बकाया नहीं है
 5. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के अनुदेश सं. 16 के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“17. करदाता जो यथासंशोधित अधिसूचना सं. 2/2019-राज्य कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करना चाहते हैं वे इस प्ररूप के क्रम सं. 5 और 6.1 (iii) पर ऐसा विकल्प उपदर्शित करेंगे।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2019

क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच (45) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच (45), दिनांक 23-04-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 23rd April 2019

NOTIFICATION
No. 20/2019 – State Tax

No. F-10-19/2019/CT/V (45). -In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (ThirdAmendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of issue of this Notification.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 23, in sub-rule (1), after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided further that all returns due for the period from the date of the order of cancellation of registration till the date of the order of revocation of cancellation of registration shall be furnished by the said person within a period of thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration:

Provided also that where the registration has been cancelled with retrospective effect, the registered person shall furnish all returns relating to period from the effective date of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation of registration within a period of thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration.”.

3. In the said rules, in rule 62,-

a) in the marginal heading, for the words “Form and manner of submission of quarterly return by the composition supplier”, the words “Form and manner of submission of statement and return” shall be substituted;

b) in sub-rule (1), -

(i) for the portion beginning with the words and figures “paying tax under section 10” and ending with letters and figures “ **FORM GSTR-4**”, the following shall be substituted, namely:-

“Paying tax under section 10 or paying tax by availing the benefit of notification No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, of the Chhattisgarh Government, Commercial Tax Department, published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, vide No. 87, dated the 11th March, 2019 shall-

(i) furnish a statement, every quarter or, as the case may be, part thereof, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08**, till the 18th day of the month succeeding such quarter; and

(ii) furnish a return for every financial year or, as the case may be, part thereof in **FORM GSTR-4**, till the thirtieth day of April following the end of such financial year,”;

(ii) the proviso shall be omitted;

c) in sub-rule (2), for the portion beginning with the words “return under” and ending with the words “other amount”, the following shall be substituted, namely:-

“Statement under sub-rule (1) shall discharge his liability towards tax or interest”;

d) in sub-rule (4),-

(i) after the words and figures “opted to pay tax under section 10” the words, letters, figures and brackets “or by availing the benefit of notification No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, of the Chhattisgarh Government, Commercial Tax Department, published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, No. 87, dated the 11th March, 2019” shall be inserted;

(ii) in the Explanation,-

(A) after the words “not be eligible to avail”, the word “of” shall be omitted;

(B) after the words “opting for the composition scheme”, the words, letters, figures and brackets “or opting for paying tax by availing the benefit of notification No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, of the Chhattisgarh Government, Commercial Tax Department, published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, No. 87, dated the 11th March, 2019” shall be inserted;

e) in sub-rule (5), for the words, figures and letters “the details relating to the period prior to his opting for payment of tax under section 9 in **FORM GSTR-4** till the due date of furnishing the return for the quarter ending September of the succeeding financial year or furnishing of annual return of the preceding financial year, whichever is earlier”, the words, letters and figures “a statement in **FORM GST CMP-08** for the period for which he has paid tax under the composition scheme till the 18th day of the month succeeding the quarter in which the date of withdrawal falls and furnish a return in **FORM GSTR-4** for the said period till the thirtieth day of April following the end of the financial year during which such withdrawal falls” shall be substituted;

f) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(6) A registered person who ceases to avail the benefit of notification No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, of the Chhattisgarh Government, Commercial Tax Department, published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, No. 87, dated the 11th March, 2019, shall, where required, furnish a statement in **FORM GST CMP-08** for the period for which he has paid tax by availing the benefit under the said notification till the 18th day of the month succeeding the quarter in which the date of cessation takes place and furnish a return in **FORM GSTR - 4** for the said period till the thirtieth day of April following the end of the financial year during which such cessation happens.”.

4. In the said rules, after **FORM GST CMP-07**, the following form shall be inserted, namely:-

"Form GST CMP - 08

[See rule 62]

Statement for payment of self-assessed tax

		Financial Year					
		Quarter					
1.	GSTIN						
2.	(a) Legal name	<Auto>					
	(b) Trade name	<Auto>					
	(c) ARN	<Auto> (After filing)					
	(d) Date of filing	<Auto> (After filing)					

3. Summary of self-assessed liability

(net of advances, credit and debit notes and any other adjustment due to amendments etc.)

(Amount in ₹ in all tables)

Sr. No.	Description	Value	Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
1.	Outward supplies (including exempt supplies)					
2.	Inward supplies attracting reverse charge including import of services					
3.	Tax payable (1+2)					
4.	Interest payable, if any					
5.	Tax and interest paid					

4. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Signature

Place :

Name of Authorised Signatory

Date:

Designation/Status

Instructions:

1. The taxpayer paying tax under the provisions of section 10 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 or by availing the benefit of notification No. 02/2019- State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, of the Chhattisgarh Government, Commercial Tax Department, [published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, No. 87, dated the 11th March, 2019] shall make payment of tax on quarterly basis by the due date.
 2. Adjustment on account of advances, credit/debit notes or rectifications shall be reported against the liability.
 3. Negative value may be reported as such if such value comes after adjustment.
 4. If the total tax payable becomes negative, then the same shall be carried forward to the next tax period for utilising the same in that tax period.
 5. Interest shall be leviable if payment is made after the due date.
 6. 'Nil' Statement shall be filed if there is no tax liability due during the quarter."
5. In the said rules, in **FORM GST REG-01**, after instruction number 16, the following instruction shall be inserted, namely:-

"17. Taxpayers who want to pay tax by availing benefit of notification No. 2/2019 – State Tax (Rate) dated 07.03.2019, as amended, shall indicate such option at serial no. 5 and 6.1(iii) of this Form."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2019

अधिसूचना

सं. 21/2019 - राज्य कर

क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच(46).- राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 07) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले या छत्तीसगढ़ के राजपत्र, असाधारण, क्रमांक 87 दिनांक 11 मार्च 2019 द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-राज्य कर(दर), तारीख 7 मार्च, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) के फायदे का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो विवरणी देने और कर का संदाय करने के लिए नीचे यथावर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति, राज्य माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में एक स्वनिर्धारित कर संदाय के ब्यौरे में अंतर्विष्ट करते हुए, यथास्थिति, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग का ऐसे तिमाही के उत्तरवर्ती मास की 18 तारीख तक एक विवरण प्रस्तुत करेंगे।

3. उक्त व्यक्ति, राज्य माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में, यथास्थिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए एक विवरणी, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से आगामी की 30 अप्रैल को या उसके पहले प्रस्तुत करेंगे।

4. उक्त अधिसूचना का उपभोग करके कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के बारे में, ऐसी अवधि के संबंध में जिसके लिए उन्होंने उक्त फायदे का उपभोग किया है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 37 और धारा 39 के उपबंध का अनुपालन किया है यदि वे उन्होंने उपरोक्त पैरा 2 और पैरा 3 में यथा उपबंधित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 और प्ररूप जीएसटीआर-4 दे दिया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2019

क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच(46).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच(46), दिनांक 23-04-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 23rd April 2019

NOTIFICATION

No. 21/2019 - State Tax

No. F-10-19/2019/CT/V (46).- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons paying tax under the provisions of section 10 of the said Act or by availing the benefit of notification No. 02/2019- State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, vide No. 87, dated the 11th March, 2019, (hereinafter referred to as "the said notification") as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing of return and payment of tax.

2. The said persons shall furnish a statement, every quarter or, as the case may be, part thereof containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 18th day of the month succeeding such quarter.
3. The said persons shall furnish a return for every financial year or, as the case may be, part thereof in FORM GSTR-4 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, on or before the 30th day of April following the end of such financial year.
4. The registered persons paying tax by availing the benefit of the said notification, in respect of the period for which he has availed the said benefit, shall be deemed to have complied with the provisions of section 37 and section 39 of the said Act if they have furnished FORM GST CMP-08 and FORM GSTR-4 as provided in para 2 and para 3 above.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2019

अधिसूचना
सं. 22/2019 - राज्य कर

क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच (47).- राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 07) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 21 जून, 2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिससे छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (चौदहवां) संशोधन नियम, 2018 का नियम 12 [छत्तीसगढ़ के राजपत्र, असाधारण, क्रमांक 522 तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 74/2018-राज्य कर, तारीख 31 दिसंबर, 2018] प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2019

क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच (47).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच (47), दिनांक 23-04-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 23rd April 2019

NOTIFICATION
No. 22/2019 - State Tax

No. F-10-19/2019/CT/V (47).- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby appoints the 21st day of June, 2019, as the date from which the provisions of the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Fourteenth) Amendment Rules, 2018 rule 12 of [notification No. 74/2018 - State Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, vide number 522, dated the 31st December, 2018], shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2019

कठिनाइयों को दूर करने का आदेश

सं. 05 - राज्य कर

क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच(48).- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सीजीजीएसटी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 29 की उप-धारा (2), खंड (क) से खंड (ड) में वर्णित परिस्थितियों में समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का उपबंध है, जो इस प्रकार से है, जहां :-

- (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, जैसा विहित किया जाए, ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है; या
- (ख) धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है; या
- (ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छः मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है; या
- (घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छः मास के भीतर कारबार प्रारम्भ नहीं किया है; या
- (ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है;

परंतु समुचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

और, सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) नोटिस की तामील (सुनवाई का अवसर) के लिए उपबंध करती है; उक्त उप-धारा के खंड (ग) और (घ) निम्न प्रकार से हैं :-

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर यथा संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा; या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा; या

और, धारा 30 की उप-धारा (1) रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध करती है।

और, सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के द्वारा, उस तारीख से जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील फ़ाइल करने का उपबंध करती है और सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) अपील प्राधिकारी को सशक्त करती है कि, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, अपीलकर्ता तीन मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो, वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

और, सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार उचित अधिकारी द्वारा नोटिस तामील के द्वारा सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन बड़ी संख्या में रजिस्ट्रीकरण रद्द हुए हैं और सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में रद्दकरण आदेश के प्रतिसंहरण के लिए उपबंधित तीस दिन की अवधि, सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फ़ाइल करने की अवधि और सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) में विलंब के लिए क्षमा की अवधि भी व्यपगत हो गई है; रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके रजिस्ट्रीकरण सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन रद्द हो चुके हैं, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बावजूद अपने रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कराने में असमर्थ हैं। जी एस टी के एक नया अधिनियम होने के चलते, ये करदाता पहले की व्यवस्था की तुलना में, जहां

नोटिस की तामील हाथ से होती थी, ई-मेल द्वारा या पोर्टल पर उपलब्ध कराये गए नोटिस की तामील की रीति से परिचित नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं;

अतः अब, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम - इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना-पांचवां) आदेश, 2019 है।

उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा(1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ परंतु यह कि, वह व्यक्ति जिसे धारा 169 की उप-धारा(1)के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और जो उक्त नोटिस का उत्तर नहीं दे सका है, जिसका परिणाम उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण है, और इसलिए वह तारीख 31-03-2019 तक पारित ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा(1)के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने में असमर्थ है, उसे 22.07.2019 तक रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।”।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2019

क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच(48).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक 10-19/2019/वाक/पांच(48), दिनांक 23-04-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 23rd April 2019

REMOVAL OF DIFFICULTY ORDER No. - 05 (State Tax)

No. F-10-19 /2019/CT/V (48).- WHEREAS, sub-section (2) of section 29 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the 'CGGST Act') provides for cancellation of registration by proper officer in situations described in clause (a) to clause (e) as under: -

- (a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or
- (b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or
- (c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or
- (d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or

(e) registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of facts:

Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 169 of the CGGST Act provides for service of notice (opportunity of being heard); clause (c) and (d) of said sub-section are as under: -

(c) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or

(d) by making it available on the common portal; or

AND WHEREAS, sub-section (1) of Section 30 provides for revocation of cancellation of the registration within thirty days from the date of service of the cancellation order.

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 107 of the CGGST Act provides for filing appeal by any person aggrieved by any decision or order passed by an adjudicating authority within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person and sub-section (4) of section 107 of the CGGST Act empowers the Appellate Authority that it may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, allow it to be presented within a further period of one month.

AND WHEREAS, a large number of registrations have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the CGGST Act by the proper officer by serving notices as per clause (c) and clause (d) of sub-section (1) of section 169 of the CGGST Act and the period of thirty days provided for revocation of cancellation order in sub-section (1) of section 30 of the CGGST Act, the period for filing appeal under section (1) of section 107 of the CGGST Act and also the period of condoning the delay provided in sub-section (4) of Section 107 of the CGGST Act has elapsed; the registered persons whose registration have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the CGGST Act are unable to get their cancellation of registration revoked despite having fulfilled all the requirements for revocation of cancellation of registration. GST being a new Act, these taxpayers were not familiar with the manner of service of notice by e-mail or making available at portal in comparison to earlier regime where manual service of notice was provided, as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (1) of section 30 of the CGGST Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

Short title.—This Order may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Fifth Removal of Difficulties) Order, 2019.-

In sub-section (1) of section 30 of the said Act, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the registered person who was served notice under sub-section (2) of section 29 in the manner as provided in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 169 and who could not reply to the said notice, thereby resulting in cancellation of his registration certificate and is hence unable to file application for revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the Act, against such order passed up to 31-03-2019, shall be allowed to file application for revocation of cancellation of the registration not later than 22-07-2019.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.